

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2016—फाल्गुन 6, शक 1937

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्र. एफ. 35-61-2005-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा दिनांक 25 फरवरी 2016 से तीन माह की अवधि के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध करती है :—

#### अनुसूची

ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ सभी छः कंपनियों यथा एम. पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म. प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर एवं म. प्र. पॉवर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों की सेवाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्र. एफ. 35-61-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 25<sup>th</sup> February 2016

F. No.35-61-2005-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 25<sup>th</sup> February 2016 for a period of three months :—

SCHEDULE

Concerned officers & employees and Ministerial staff of M.P. Power Management Company Limited Jabalpur, Madhya Pradesh Poorv/Madhya/Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited Jabalpur/Bhopal/Indore and M. P. Power Transmission/Generating Company Limited Jabalpur Under Energy Department GO MP.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJEEV SHRIVASTAVA, Dy. Secy.